

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2025 पौष 23, शक 1946

### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

### आदेश

क्र. 3865/आर-1851162-2024-बी-1-दो.- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 497 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, विहित करती है कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट, संपत्ति को प्रस्तुत करने के 14 दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 497 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संपत्ति का विवरण तैयार करेगा :-

#### 1. वाहन की दशा में,-

- |   |       |
|---|-------|
| (क) वाहन का प्रकार                                  | ..... |
| (ख) वाहन का मॉडल                                    | ..... |
| (ग) वाहन का रंग                                     | ..... |
| (घ) वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर                       | ..... |
| (ङ) वाहन का इंजिन और चेसिस नम्बर                    | ..... |
| (च) वाहन की स्थिति                                  | ..... |
| (छ) वाहन का कोई पहचान चिन्ह, यदि कोई हो, उसका विवरण | ..... |
| (ज) अन्य विवरण                                      | ..... |

## 2. आभूषण आदि की दशा में -,

- (क) आभूषण का नाम जैसे-चैन, मंगलसूत्र, चूड़ी आदि : .....
- (ख) आभूषण किस धातु का बना है, जैसे-सोना, चांदी आदि : .....
- (ग) आभूषण का टंच : .....
- (घ) आभूषण का वजन : .....
- (ड.) आभूषण की पहचान, यदि कोई हो, उसका विवरण: .....
- (च) अन्य विवरण : .....

## 3. पशु आदि की दशा में,-

- (क) पशु का नाम : .....
- (ख) पशु का रंग : .....
- (ग) पशु का पहचान चिन्ह : .....
- (घ) पशु की उम्र : .....
- (ड) अन्य विवरण : .....

## 4. करेंसी नोट की दशा में,-

- (क) नोट का प्रकार :: .....
- (ख) नोटों की संख्या : .....
- (ग) नोटों का सीरियल नम्बर : .....
- (घ) अन्य विवरण : .....

## 5. फसल की दशा में,-

- (क) फसल का नाम : .....
- (ख) फसल का वजन : .....
- (ग) अन्य विवरण : .....

## 6. धान, तिलहन आदि की दशा में,-

- (क) धान / तिलहन का नाम : .....
- (ख) धान / तिलहन का नाम : .....
- (ग) अन्य विवरण : .....

7. दस्तावेज की दशा में,-

- (क) दस्तावेज के प्रकार, जैसे-बीमा, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री, चेकआदि  
.....
- (ख) दस्तावेज की पृष्ठ संख्या: .....
- (ग) दस्तावेज को तैयार/निष्पादित किए जाने की तारीख : .....
- (घ) दस्तावेज के समाप्ति की तारीख : .....
- (ङ) दस्तावेज के अन्य विवरण : .....
- (च) अन्य विवरण : .....

8. अन्य वस्तुओं की दशा में,-

- (क) वस्तु का नाम : .....
- (ख) वस्तु का प्रकार : .....
- (ग) वस्तु का मॉडल : .....
- (घ) वस्तु का वजन : .....
- (ङ) वस्तु का पहचान चिन्ह : .....
- (च) वस्तु की संख्या : .....
- (छ) वस्तु के अन्य विवरण : .....
- (ज) अन्य विवरण : .....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव राजपूत, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

क्र. आर-1851162-2024-बी-1-दो.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव राजपूत, सचिव.

No. 3865 R-1851162-2024-B-1-Two;

Bhopal, the 13<sup>rd</sup> January 2025**ORDER**

In exercise of the powers conferred by section 497 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the State Government, hereby, prescribes that the Court or the Magistrate shall prepare a statement of property, as specified in sub-section (1) of section 497 of the said Act within a period of 14 days from the date of production of the property, namely:-

## 1. In case of vehicle,-

- (a) type of vehicle : .....
- (b) model of vehicle : .....
- (c) colour of vehicle : .....
- (d) registration number of vehicle : .....
- (e) engine and chassis number of vehicle : .....
- (f) condition of vehicle : .....
- (g) any identity mark of the vehicle, if any, its details : .....
- (h) other details : .....

## 2. In case of ornaments,-

- (a) name of ornament, such as chain, mangalsutra, bangles, etc. : .....
- (b) ornaments are made up of which metal, such as-gold, silver, etc. : .....
- (c) purity of the ornament : .....
- (d) weight of the ornament : .....

- (e) the identity of ornament, : .....  
if any, its details
- (f) other details : .....
3. In case of animal, etc.,-
- (a) name of animal : .....
- (b) colour of animal : .....
- (c) identity sign of animal : .....
- (d) age of animal : .....
- (e) other details : .....
4. In case of currency note,-
- (a) type of note : .....
- (b) number of notes : .....
- (c) serial number of notes : .....
- (d) other details : .....
5. In case of crop,-
- (a) name of crop : .....
- (b) weight of crop : .....
- (c) other details : .....
6. In case of paddy, oil seed, etc.,-
- (a) name of paddy/oil seed : .....
- (b) weight of paddy/oil seed : .....
- (c) other details : .....
7. In case of documents,-
- (a) types of documents, such : .....  
as-insurance, registration,  
registry, cheque, etc.
- (b) number of pages of : .....  
documents
- (c) date of making/execution : .....  
of papers
- (d) closure date of documents : .....
- (e) other details of documents : .....
- (f) other details : .....

**8. In case of other things,-**

- (a) name of the thing : .....
- (b) type of the thing : .....
- (c) model of the thing : .....
- (d) weight of the thing : .....
- (e) identity sign of the thing : .....
- (f) number of the thing : .....
- (g) other details of the thing : .....
- (h) other details : .....

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
GAURAV RAJPUT, Secy.